



कांसुल जनरल एडगार्ड डी. केगन

एडगार्ड केगन ने 2014-2017 में अमेरिकी दूतावास कुआलालम्पुर, मलेशिया में डिप्टी चीफ ऑफ मिशन के रूप में कार्य किया है। वह सितंबर 2013 से जुलाई 2014 तक संयुक्त राष्ट्र के वाशिंगटन ऑफिस में अमेरिकी मिशन के उपनिदेशक रहे हैं। उन्होंने वहां संयुक्त राष्ट्र में कैबिनेट सदस्य के रूप में अमेरिका की स्थायी प्रतिनिधि सामंथा पावर का सहयोग किया है, इसमें नेशनल सिक्यूरिटी काउंसिल डेप्यूटीज कमिटी की बैठकों में नियमित भाग लेना सम्मिलित है। श्री केगन ने ब्यूरो ऑफ ईस्ट एशियन एंड पैसेफिक अफेयर्स में जुलाई 2012 से अगस्त 2013 तक डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी के रूप में कार्य किया है। वहां उन्होंने

आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, और प्रशांत द्वीपों के साथ अमेरिकी संबंधों का निरीक्षण किया है। 1991 से विदेश सेवा के अधिकारी के रूप वे कोरियाई मामलों के निदेशक रहे हैं, इसमें अगस्त 2011 से जनवरी 2012 तक जापान और कोरिया के कार्यवाहक डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी के रूप में कार्य करना भी शामिल है। श्री केगन ने कैनबरा, आस्ट्रेलिया में अमेरिकी दूतावास में आर्थिक और उसके बाद राजनीतिक-आर्थिक काउंसिलर के रूप में कार्य किया है। उन्होंने पहले बीजिंग; तेल अवीव; बुडापेस्ट; और आबिदजान, कोट आइवोर के अमेरिकी दूतावासों में कार्य किया है। वाशिंगटन में उनके अन्य कार्यों में ऑफिस ऑफ चाइनीज एंड मंगोलियन मामलों के कार्यालय में डेस्क ऑफिसर के रूप में कार्य करने के साथ-साथ नीति योजना के निदेशक के सहायक स्टाफ के रूप में नियुक्ति शामिल हैं।

येल यूनिवर्सिटी से स्नातक श्री केगन ने न्यूयॉर्क सिटी ब्यूरो ऑफ ब्रिजेज 1989-1991 में वित्तीय और बजट संचालन डिवीजन के निदेशक के रूप में कार्य किया है। वह फ्रेंच और मैडेरियन चाइनीज के साथ-साथ हंगेरियन और स्पैनिश भाषाएं बोलते हैं। श्री केगन का जन्म शिकागो में हुआ था और विल्मेट्टी, इलिनॉइस में पले-बढ़े हैं, उन्होंने सिंथिया गाइरे से विवाह किया है तथा उनके तीन बच्चे हैं।